



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321]
No. 321]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 1984/आषाढ़ 20, 1906
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 1984/ASADHA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1984

का० आ० 498(अ) —केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखनी) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्र अधिकारी को पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करते हुए करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम

लोक परिसर की श्रेणी और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं

1

2

1. निदेशक और उपनिदेशक (प्रशासन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई।

परिसर जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई की या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई, या उसके स्वामित्वाधीन भूमि और भवन हैं जिसके अन्तर्गत उसके कर्मचारियों का स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में आबस्तित परिसर भी है।

2 निदेशक/उपनिदेशक, राज्य कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, लाजपत राय भवन, केसरबाग, लखनऊ।

परिसर जिसको खादी ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ की या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई या उसके स्वामित्वाधीन भूमि और भवन हैं जिसके अन्तर्गत उसके कर्मचारियों का स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में आबस्तित परिसर भी है।

1	2
3. निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 7, मालवीयनगर, भोपाल-3	परिसर जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग भोपाल की या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई या उसके स्वामीत्वाधीन भूमि और भवन हैं जिसके अन्तर्गत उसके कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में आबंटित परिसर भी है।
3. निवासी प्रतिनिधि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ए-1, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली।	परिसर जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली की या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई या उसके स्वामीत्वाधीन भूमि और भवन हैं जिसके अन्तर्गत इसके कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में आबंटित परिसर भी है।

[सं० 3(7)/83-के०वी० आई० (1)]

एस० बी० गोयल, डी० सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1984

S.O. 498 (E) —In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below being the officers of equivalent to the rank of gazetted officer of Government to be estate officers for the purpose of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE	
Designation of the Officer	Categories of the public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Director and Deputy Director (Administration) Khadi and Village Industries Commission, Bombay.	Premises consisting of land and buildings belonging to or taken on lease or owned by the Khadi and Village Industries Commission, Bombay including those premises allotted as staff-quarters to its employees.
2. Director/Deputy Director, State Office, Khadi and Village Industries Commission, Lajpatrai Bhavan, Kaiserbagh, Lucknow.	Premises consisting of land and buildings belonging to or taken on lease or owned by the Khadi and Village Industries Commission, Lucknow, including those premises allotted as staff-quarters to its employees.
3. Director/Asstt. Director, State Office, Khadi and Village Industries Commission, 7, Malviya Nagar, Bhopal 3.	Premises consisting of land and buildings belonging to or taken on lease or owned by the Khadi and Village Industries Commission, Bhopal, including those premises allotted as staff-quarters to its employees.
4. Resident Representative, Khadi and Village Industries Commission, A-1, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi.	Premises consisting of land and buildings belonging to or taken on lease or owned by the Khadi and Village Industries Commission, New Delhi, including those premises allotted as staff-quarters to its employees.

[No. 3(7)/83-KVI(I)]

S. B. GOEL, Dy. Secy.